



Australian Government

jobactive

jobactive (जॉबएक्टिव) - स्टाफ की खोज में आपकी सहायक

jobactive (जॉबएक्टिव) ऑस्ट्रेलिया के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार देने के लिए ऑस्ट्रेलियाई सरकार की एक पहल है. यह नौकरी की तलाश में लगे हुए लोगों का कार्य-नियोक्ताओं से संपर्क जोड़ती है और यह सेवा पूरे ऑस्ट्रेलिया में 1700 से भी अधिक स्थानों पर jobactive सेवा-प्रदाताओं के एक नेटवर्क के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती है.

एक कार्य-नियोक्ता के रूप में आप बिना किसी खर्च के, विशिष्ट सेवा कार्यों के लिए स्थानीय jobactive सेवा-प्रदाता की सेवाएं प्राप्त कर सकते/सकती हैं. या फिर jobactive वेबसाइट या एप्प के माध्यम से आप स्वयं खाली पदों पर नियुक्ति कर सकते/सकती हैं.

jobactive से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं?

jobactive सेवा-प्रदाता आपको बिना किसी खर्च के सम्पूर्ण एवं व्यावसायिक भर्ती सेवाएं प्रदान करते हैं. पूरे ऑस्ट्रेलिया में से jobactive सेवा-प्रदाताओं को चुनने के लिए वेबसाइट www.jobactive.gov.au पर जाएँ.

आपका jobactive सेवा-प्रदाता आपके व्यवसाय की खास आवश्यकताओं के बारे में आपसे व्यक्तिगत रूप से या फोन पर बातचीत करेगा. वह प्रदान की जाने वाली सेवाओं की एक रूप रेखा प्रस्तुत करेगा जिनमें निम्नलिखित शामिल होंगे:

- छॉटि गए और नौकरी के लिए तैयार उम्मीदवार
- रोजगार से पहले का प्रशिक्षण और ज़रूरी होने पर आपके व्यवसाय के काम-काज से संबंधित साजो-सामान
- नए कर्मचारी के कार्य में स्थापित होने तक पूरी सहायता
- आपके द्वारा योग्य उम्मीदवार को बहाल कर लिए जाने के बाद वेतन छूट इत्यादि तक पहुंच हासिल कराने का काम.

स्व-सेवा संबंधी विकल्पों के बारे में क्या?

आप चाहें तो www.jobactive.gov.au पर jobactive वेबसाइट या निःशुल्क jobactive Employer (जॉबएक्टिव एंप्लायर) एप्प (iTunes और Google Play पर उपलब्ध) के माध्यम से अपने खाली पदों के बारे

में विज्ञापन देने और सारी प्रक्रिया का स्वयं संचालन करने का विकल्प भी चुन सकते/सकती हैं.

बागवानी (होर्टिकल्चर) का कार्य करने वालों के लिए jobactive सहायता

यदि आप बागवानी का कार्य करते/करती हैं, तो आप jobactive Harvest Labour Services (जॉबएक्टिव फसल श्रम-सेवा) के माध्यम से कृषि-सहायकों की तलाश कर सकते/सकती हैं. वेबसाइट

www.jobsearch.gov.au/harvesttrail के माध्यम से आप स्थानीय Harvest Labour Services की खोज कर सकते/सकती हैं. वे काम करने वालों की पूरी जांच-परख करने के बाद उत्पादकों से उनका मिलान कराते हैं.

आप चाहें तो वेबसाइट www.harvesttrail.gov.au पर Harvest Trail (हार्वेस्ट ट्रेल) या jobactive Employer (जॉबएक्टिव एंप्लायर) एप्प के माध्यम से अपने रोजगार संबंधी खाली पदों का विज्ञापन भी दे सकते/सकती हैं.

क्या आपको और अधिक जानकारी चाहिए?

- वेबसाइट www.jobactive.gov.au पर जाएँ
- 13 17 15* पर Employer Hotline (एंप्लायर हॉटलाइन) पर फोन करें.

क्या इस तथ्य-पत्रक के बारे में आपको कोई सहायता चाहिए?

यदि आपको दुभाषिया सेवा चाहिए, तो कृपया 131 450* पर Translating and Interpreting Service (TIS) यानि अनुवाद एवं दुभाषिया सेवा को फोन करें और उनसे 13 17 15* पर Employer Hotline से संपर्क जोड़ने के लिए कहें.

यदि आप बोलने में असमर्थ हैं या सुनने या बोलने में बाधा का अनुभव करते/करती हैं, तो आप National Relay Service (नेशनल रिले सर्विस) का उपयोग कर सकते/सकती हैं. और अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट www.relayservice.gov.au पर जाएँ.

* कृपया ध्यान रखें कि मोबाइल फोनो से '13' नंबर पर फोन करने से कॉल प्रभार लागू होते हैं.